



भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

वि. अ. आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित
भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान
वलियमला, तिरुवनंतपुरम 695 547, केरल

स्नातक
प्रवेश
विवरणिका

2024



दृष्टिकोण एवं लक्ष्य



दृष्टिकोण

विश्व का उत्तम स्तरीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान बनकर अंतरिक्ष
उद्यमों को प्रबल प्रेरणा प्रदान करना।

लक्ष्य

- ★ अंतरिक्ष कार्यक्रमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनोखा अध्ययन परिवेश तैयार करना।
- ★ नवोन्मेष और सृजन की प्रवृत्ति का परिपोषण करना।
- ★ अछूते क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र संस्थापित करना।
- ★ नैतिक एवं मूल्याधिष्ठित शिक्षा उपलब्ध करा देना।
- ★ सामाजिक आवश्यकताओं का सामना करने लायक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- ★ नामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से नेटवर्क स्थापित करना।





मुख्य पदधारी



श्री. एस. सोमनाथ
अध्यक्ष, आईआईएसटी शासी निकाय
अध्यक्ष, आईआईएसटी शासी परिषद
सचिव, अंतरिक्ष विभाग / अध्यक्ष इसरो



डॉ. बी. एन. सुरेश
कुलाधिपति



डॉ. एस. उप्पिंकुण्णन नायर
निदेशक
अध्यक्ष, प्रबंध समिति



प्रोफ. कुरुविळा जोसफ़
डीन एवं कुलसचिव
(शैक्षिकी)



प्रोफ. ए. चंद्रशेखर
डीन
(अनुसंधान एवं विकास)



प्रोफ. राजु के. जॉर्ज
डीन
छात्र गतिविधियां,
छात्र कल्याण एवं
बहिरंग कार्यक्रम



प्रोफ. सी. एस. नारायणमूर्ति
डीन
(आईपीआर एवं
सतत शिक्षा,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध)



	विषय- सूची	पृष्ठ
1.	संस्थान के बारे में	03
2.	आईआईएसटी में अनुसंधान एवं पाठ्यचर्या प्रयोगशाला	05
3.	आईआईएसटी का लघु उपग्रह एवं पेलोड	06
4.	आईआईएसटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र	09
5.	आईआईएसटियनों की उपलब्धियां	10
6.	कैंपस लाईफ	14
7.	स्नातक कार्यक्रम: एक छलक	16
8.	स्नातक कार्यक्रम 2024 का सीट मेट्रिक्स	17
9.	सीट आबंटन	18
10.	सत्र शुल्क संरचना	20
11.	मेधा छात्रवृत्ति	22
12.	इसरो/अंतरिक्ष विभाग आमेलन नीति	22
13.	प्रवेश के लिए पात्रता	22
14.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	25
15.	ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया	26
16.	सीट आवंटन / स्वीकृति दौर की अनुसूची	30
17.	विशेष ऑनलाईन या स्पोट प्रवेश दौर	30
18.	आईआईएसटी में शिक्षा आरंभ	31
19.	स्थानन	31
20.	संपर्क विवरण	33
21.	विवाद निवारण	33
22.	परिशिष्ट	34

1. संस्थान के बारे में

केरल में तिरुवनंतपुरम में वर्ष 2007 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) वि. अ.आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित है, जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर कार्यरत है। आईआईएसटी का प्रारंभ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए, जो अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में लगे विश्व के अगुआई संगठनों में से एक है, उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति का विकास करने के उद्देश्य से किया गया। यह अपने आप में देश का ऐसा प्रथम संस्थान है, जो अंतरिक्ष विज्ञानों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में विशेष रूप से ध्यान देकर स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करता है।

उत्कृष्ट अवसरचना से सुसज्जित और लगभग 95 उच्च योग्यता प्राप्त संकाय सदस्यों (तालिका 1-1) से, आईआईएसटी अपनी स्थापना के एक दशक के भीतर, उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा स्थापित 2022 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में संस्थान को देश की सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में 45 वें स्थान पर रखा गया है। इन संस्थानों में “शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन” के लिए आईआईएसटी को 75% से अधिक उच्च अंक प्राप्त हुआ है जो देश के कई प्रमुख संस्थानों की तुलना में बेहतर है। यह संस्थान वर्तमान में तीन स्नातक और पंद्रह स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है जो नीचे सूचीबद्ध हैं।

स्नातक कार्यक्रम

- बी. टेक. वांतरिक्ष इंजीनियरी
- बी. टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी (एविओनिक्स)
- दोहरी उपाधि (इंजीनियरी भौतिकी में बी. टेक. + निम्नलिखित में से किसी एक में विज्ञान निष्णात/ एम. टेक.)
 - मास्टर ऑफ साइन्स ऐस्ट्रोनामि एंड ऐस्ट्रोफिสิกस
 - मास्टर ऑफ साइन्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स
 - एम. टेक. अर्थ सिस्टम साइन्स
 - एम. टेक. ऑप्टिकल इंजीनियरिंग

पिछले वर्षों के यूजी नामांकन तालिका 1 - 2 में दिखाया गया है

स्नातकोत्तर कार्यक्रम

- | | |
|--|--|
| • एम. टेक. थर्मल एंड प्रोपल्शन | • एम. टेक. मैटीरियल साइन्स एंड टेक्नॉलजी |
| • एम. टेक. एयरोडाइनामिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स | • एम. टेक. अर्थ सिस्टम साइन्स |
| • एम. टेक. स्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइन | • एम. टेक. जियोइन्फार्मेटिक्स |
| • एम. टेक. आर. एफ. एंड माइक्रोवेव इंजीनियरी | • मास्टर ऑफ साइन्स ऐस्ट्रोनामि एंड ऐस्ट्रोफिสิกस |
| • एम. टेक. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग | • एम. टेक. मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटिंग |
| • एम. टेक. कंट्रोल सिस्टम | • एम. टेक. ऑप्टिकल इंजीनियरिंग |
| • एम. टेक. वीएलएसआई एंड माइक्रोसिस्टम्स | • एम.टेक. क्वांटम प्रौद्योगिकी |
| • एम. टेक. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स | |

इसके अलावा, आईआईएसटी में उत्कृष्ट अनुसंधान वातावरण है, जिसमें 370 से अधिक पीएचडी शोध छात्र प्रगत अनुसंधान क्षेत्रों में लगे हुए हैं। मूल सिद्धांतों को मजबूत करने, व्यावहारिक कार्य के माध्यम से हस्ताभ्यास प्रदान करने, समझ बढ़ाने और अभिरुचि के विविध क्षेत्रों में ज्ञान का विकास करने के उद्देश्य से शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। आईआईएसटी छात्रों में नवप्रवर्तन की संस्कृति विकसित करने पर केंद्रित है।

आईआईएसटी में सभी शैक्षिक प्रयोगशालाओं का अभिकल्पन सावधानी से किया गया है और सर्वोत्तम प्रयोगात्मक सुविधा और उपकरण प्रदान किए गए हैं। आईआईएसटी में प्रगत नोदन एवं लेजर नैदानिकी, आभासी वास्तविकता

और नैनोविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तीन उत्कृष्टता के केंद्र हैं जहां छात्रों को विविध प्रगत और परिष्कृत प्रयोगों में जुड़ने का अवसर मिलता है। कई अधुनातन अनुसंधान प्रयोगशालाएं छात्रों को अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए अद्वितीय अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं। अगले दशक में कदम रखते हुए आईआईएसटी अपनी दशकीय योजनाओं में एरिस 201F, इन्सपायर सैट-1, अंतरिक्ष रोबोटिकी, अंतरिक्ष संवेदक जैसे अंतरिक्ष संबंधी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए युवा होनहार छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

आईआईएसटी और इसकी गतिविधियों के विस्तृत अवलोकन के लिए www.iist.ac.in वेबसाइट पर जाएं।

तालिका 1.1: शिक्षण कार्मिक

विभाग	संकाय सदस्य	वैज्ञानिक/तकनीकी स्टाफ
वांतरिक्ष इंजीनियरी	23	23
ईसीई (एविओनिकी)	24	10
रसायन	8	3
पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान विभाग	14	3
मानविकी	5	1
गणित	11	3
भौतिकी	12	11

तालिका 1.2: स्नातक नामांकन

वर्ष	वांतरिक्ष इंजीनियरी	एविओनिकी/ इलक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी	भौतिक विज्ञान/ दोहरी उपाधि	कुल
2007	49	60	29	138
2008	51	64	33	148
2009	52	65	34	151
2010	53	61	34	148
2011	59	58	21	138
2012	53	54	25	132
2013	60	60	36	156
2014	60	60	33	153
2015	60	58	20	138
2016	60	60	20	140
2017	60	60	20	140
2018	60	60	20	140
2019	66	66	22	154
2020	64	63	22	149
2021	67	67	22	156
2022	72	71	24	167
2023	72	73	24	169

2 आईआईएसटी में अनुसंधान एवं पाठ्यचर्या प्रयोगशालाएँ



आईआईएसटी में सभी शैक्षणिक प्रयोगशालाएँ हैं जो सभी आवश्यक अनुदेशात्मक उपकरणों से सुसज्जित हैं। परिचय प्राप्त प्रयोगशाला के कर्मचारी उन्हें प्राइम-फॉर्म में रखते हैं। प्रत्येक विभाग में छात्रों को शोध के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र, समर्पित आधुनिक उपकरणों के साथ अपनी अपनी शोध प्रयोगशालाएँ हैं। केंद्रीय कर्मशाला छात्रों के सभी रचनात्मक अभिकल्पों को जीवन देती है। एक उच्च प्रदर्शन अभिकलन केंद्र अभिकलनीय क्षेत्र में सभी शैक्षणिक अनुसंधान को पूरा करता है। छात्र इन प्रयोगशालाओं में अपनी अनुदेशात्मक प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षुताओं, परियोजनाओं आदि का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा छात्रों को अपनी प्रशिक्षुता, परियोजनाओं आदि के लिए इसरो केंद्रों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आईआईएसटी छात्रों को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे नैनो-उपग्रहों, क्यूबसैट एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग से संबंधित संवेदक आदि के अभिकल्पन एवं विकास में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। पहले बैच के छात्रों ने व्योम एमके द्वितीय जैसे साउंडिंग रॉकेटों के अभिकल्पन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

3. आईआईएसटी का लघु उपग्रह एवं पेलोड

संस्थान की विशेषता यह है कि वे इसरो के सहयोजन से युवा आईआईएसटीयनों को वैज्ञानिक प्रदायभार एवं लघु उपग्रहों के विकास में भाग लेने का मौका देते हैं। आईआईएसटी स्नातक छात्रों द्वारा विकसित कुछ प्रदायभार का विवरण यहां दिया गया है।

हाल ही में अंतरिक्ष विभाग ने पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) की घोषणा की, जिससे वैज्ञानिक समुदाय पीएसएलवी-सीए प्रमोचन यान के पीएस4 चरण का उपयोग करके कक्षा में सूक्ष्मगुरुत्व प्रयोग कर सके। आईआईएसटी की महत्वाकांक्षा उस मिशन के अनुरूप थी और हमारी शोध टीमों ने तुरंत POEM-2023 के लिए दो प्रदायभार का अभिकल्पन कर आपूर्ति की, और यह 22 अप्रैल 2023 को सटीक रूप से लोकार्पित हुआ।



ARIS (Advanced Retarding Potential Analyser for Ionospheric Studies) payload was conceptualized and built by a team of Inter-Disciplinary Professors (Umesh Kadhane (Physics), Sudharsan Kaarthik (ECE), Sooraj, V.S. (Aerospace), and Anoop, C.S. (ECE)) of IIST. It is an Ionospheric plasma and electrostatic instrument to study the structural and composition of the ionosphere. Earth's ionosphere is a natural detector of terrestrial phenomena and solar activities. Small and difficult-to-detect geomagnetic variations can easily be sensed in the ionosphere, such measurements are used to predict the imminent earthquakes by a few hours. Similarly, solar activity which is the main driver of the ionosphere can be studied in real-time by performing ion and electron density measurements in the ionosphere. Such measurements provide us with the warning of hazardous radiation effects on space assets, possible radiation exposure to aircraft crew and possible power grid disruptions. Real-time monitoring of Ionosphere is important. ARIS 201F was launched on 22 Apr 2023 through PSLV C55. ARIS 201F is an upgraded version of ARIS 101F which was flown to Earth's ionosphere in 2019 as part of the PSLV C45 mission. Upgradations include indigenous and in-house-built sensors with high sensitivity and high energy resolution and optimised operating parameters to receive more data in the energy range relevant to the Earth ionosphere (based on data received from ARIS 101F).




The second payload was Pslv-In-orbital Obc and Thermals (PILOT). It is a student payload to validate a thermal simulation model at real flight conditions. The main mission objectives are the following: a) To demonstrate the 3D printed metal structure performance for satellite related applications designed by IIST and fabricated by L&T Pvt. Ltd, b). To validate the thermal simulation model with flight data acquired through sensors placed at strategic locations, c) To evaluate the performance of the indigenously designed On-Board Computer (OBC) along with its flight software developed for the mission, d) To demonstrate the indigenously developed RS485 telemetry communication.

INSPIRESat-1 – a success story by IIST team

In 2015, the INSPIRE (International Satellite Program in Research and Education) program was initiated by the University of Colorado, Boulder (CU) and Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP). Its objectives are to develop a constellation of small satellites along with a supportive global ground station network to aid in innovative research in spacecraft design, space systems engineering, operations, and data analysis, as well as in several educational programs. INSPIRESat-1 is a 9U CubeSat conceptualized, designed, and launched by CU/LASP, IIST (Indian Institute of Space Science and Technology), Thiruvananthapuram, Kerala, India, and NCU (National Central University), Taoyuan City, Taiwan. Its payloads are (1) DAXSS (Dual Aperture X-ray Solar Spectrometer) instrument to build knowledge on Sun's Coronal Heating process, and (2) Compact Ionosphere Probe to understand Ionosphere dynamics.

At IIST, Small-spacecraft Systems and Payload Center (SSPACE), headed by Dr. Priyadarshan H, Department of Electronics and Communication Engineering (Avionics), was established as a nodal point. A dedicated group of IIST students & faculties, scientists from various ISRO centers, and a few international collaborators joined hands in the conceptualization, design, manufacturing, and launch of the INSPIRESat-1 Nano-satellite. All students involved in this program contributed creative ideas to overcome the highly complex technological challenge and gained valuable knowledge in the field of Nano-satellites. On 14 Feb 2022, INSPIRESat-1 was launched successfully into Low Earth Orbit (LEO) by the ISRO's majestic PSLV-C52, and the IIST ground station successfully established communication with the satellite.



INSPIRESat-1 at testing bay



INSPIRESat-1 Team, IIST with the ISRO Chairman, Shri. Somanath S.



INSPIRESat-1 integration with PSLV



IIST Director, Dr. Sam Dayala Dev, flagging-off INSPIRESat-1 journey to Launch centre

Chief Student contributors



Sanidhya Vijayawat
B.Tech Avionics, 2015



Anant Kumar
B.Tech Avionics, 2016



Mallikarjun Kompella
B.Tech Avionics, 2016



Devashish Bhalla
B.Tech Aerospace, 2018



Dhruva Anantha Dutta
B.Tech Avionics, 2018




Murala Aman Naveen
B.Tech Avionics, 2018



Arosish Priyadarshan
B.Tech Avionics, 2019



Akash Mahobe
B.Tech Aerospace, 2019



एआरआईएस (एरिस) प्रदायभार अंतरिक्ष पर आईआईएसटी का पहला प्रयास था। छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों की आईआईएसटी टीम ने स्वदेशी रूप से आयनमंडलीय अध्ययन (एआरआईएस) पेलोड के लिए एक उन्नत रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर का अभिकल्पन और विकास किया। अप्रैल 1, 2019 को इसे इसरो के PSLV C45 रॉकेट द्वारा अपनी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

3.1 वैश्विक अवसर

स्नातक छात्रों को आईआईएसटी एवं / अन्य मेजबान संस्थानों के वित्त पोषण के साथ इसरो केंद्रों और देश विदेश के अन्य प्रमुख संस्थानों में अपनी प्रशिक्षुता एवं परियोजनाएं पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। छात्र प्रशिक्षुता के लिए आईआईएसटी का टाई-अप यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, बोल्डर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (कैलटेक), जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर जैसे संस्थानों के साथ है।

मेधावी छात्रों को उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करने हेतु, स्नातक कार्यक्रमों में वांतरिक्ष इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी शाखाओं के सर्वोत्तम शैक्षिक निष्पादक को विश्व प्रसिद्ध कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक), यूएसए में स्नातकोत्तर कार्यक्रम करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त नौ महीने का निष्णात कार्यक्रम अंतरिक्ष विभाग – कैलटेक प्रोफेसर सतीश धवन एंडॉवमेंट फैलोशिप के तहत आर्थिक रूप में पूरी तरह से समर्थित है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात छात्र अतिरिक्त रूप से जेपीएल में दो महीने की अवधि का प्रशिक्षुता कर सकते हैं, यह भी प्रोफेसर सतीश धवन फैलोशिप के अंतर्गत पूरी तरह से समर्थित है। लौटने पर इन छात्रों को इसरो में आमंत्रित किया जाता है।

आईआईएसटी के स्नातक छात्र (प्रत्येक शाखा से एक छात्र) पूरी वित्तीय सहायता के साथ जेपीएल में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता के लिए जाएंगे। आईआईएसटी स्नातक छात्रों ने लॉकहीड मार्टिन अडवेंचर स्टूडेंट विसिटेशन कार्यक्रम, मिटाक्स ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, कैनेडा तथा डीएएडी: जर्मन अकाडमिक ऐक्सचेंज सर्विस, जर्मनी के तहत अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हासिल की है और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रशिक्षुता की है।

स्नातक और दोहरी उपाधि छात्रों को प्रत्येक सत्रक (भाग 11 में विस्तृत रूप से बताया गया है) के लिए निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्नातक और दोहरी उपाधि छात्रों को, अपने कार्यक्रम के सफल समापन पर, इसरो के प्रतिष्ठित केंद्रों में आमंत्रित होने का अवसर मिलता है, बशर्ते कि यह रिक्तियों के उपलब्ध होने पर और भाग 12 में विस्तृत रूप से बताए गए शैक्षिक मानदंडों को पूरा करने पर

मिलता है। साथ ही साथ छात्रों को आईआईएसटी के स्थानन कक्ष द्वारा विविध संगठनों में भर्ती का भी अवसर मिलता है।

4. आईआईएसटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र



आईआईएसटी का ग्यारहवां दीक्षांत समारोह 18 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। इस वर्ष विविध शाखाओं में कुल 275 शैक्षिक उपाधियां (बी. टेक. – 135, दोहरी उपाधि – 18, एम.टेक. 97 एवं पीएचडी –25) प्रदान की गई। डॉ. के. राधाकृष्णन, भूतपूर्व सचिव, अंतरिक्ष विभाग/अध्यक्ष, इसरो मुख्य अतिथि थे डॉ. एस. उणिक्कृष्णन नायर, निदेशक, आईआईएसटी ने सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं, संकायों एवं छात्रों का स्वागत किया। श्री. एस. सोमनाथ, अध्यक्ष, शासी परिषद, आईआईएसटी एवं सचिव अंतरिक्ष विभाग/अध्यक्ष, इसरो, डॉ. बी. एन. सुरेश, माननीय कुलाधिपति, आईआईएसटी तथा मुख्य अतिथि के साथ निदेशक ने सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं दीं और उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में जटिल समस्याओं से निपटने के लिए लागत प्रभावी और स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया। श्री. हुदम नाथ (बी. टेक वांतरिक्ष इंजीनियरी) एवं श्री. अरुण एस. (ठोस अवस्था भौतिकी में दोहरी उपाधि विज्ञान निष्णात) ने क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में टॉपर थे और उन्हें प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

श्री. निर्भय त्यागी बी. टेक ई सी ई (एविओनिकी) में टॉपर थे और उन्हें नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। श्री. आयुष शर्मा (बी. टेक वांतरिक्ष इंजीनियरी) ने शैक्षिकी तथा पाठ्यतेर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ समग्र निष्पादन के लिए नकद पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

5. आईआईएसटियनों की उपलब्धियां



Achievements of IISTians

Institute Medals of excellence for Undergraduate

Under Graduate			Dual Degree
 Hrithum Nath (B.Tech Aerospace Engineering) Institute Gold Medal - UG programme	 Nirbhay Tyagi Topper in B Tech in Electronics and Communication Engineering(Avionics)	 Ayush Sharma Topper in B. Tech in Aerospace Engineering	 Arun S (Dual degree Master of Science in Solid State Physics) Institute Gold Medal - PG programme

Internships and Fellowships

 Manvendra Sharma (B Tech in Electronics and Communication Engineering(Avionics)) Australian National University fellowship 2023	 Arjun K. S (B.Tech ECE/Avionics) IEEE MITS Under graduate scholarship 2023	 Utkarsh Utsava (B Tech in Electronics and Communication Engineering (Avionics)) Fully funded Internship at EPFL, Switz through EPFL E3 program	 Prabhash Singh B.Tech Aerospace Engineering Fully funded Internship at ISAE-SUPAERO, France through Excellence Charpak Lab scholarship 2024.
---	--	--	--

Publications - BTech student in year 2023-24:




Harsh Agarwal, Deepak Mishra, and Ashok Kumar, A deep-learning approach for turbulence correction in free space optical communication with Laguerre- Gaussian modes, Optics Communications 556, 130249 (2024).

Saumya Vilas Roy secured 3rd position in the Students Flash Talks held in the Frontiers Symposium Organized by School of Data Science IISER Trivandrum.



Achievements of IISTians

Verbal Mention Award, IIST Model United Nations



Shubham Tayade
SC20B123
B.Tech ECE 4th year
Verbal Mention Award, IIST
Model United Nations

1st position in the Hindi Elocution contest at Hindi Fortnight celebrations, IIST



Rajneesh Singh, 3rd B.Tech. (ECE) student
1st position in the Hindi Elocution contest
at Hindi Fortnight celebrations, IIST

JeevYantra, the Robotics club of IIST represented by 2nd UG secured 2nd and 3rd positions at Arduino Hackathon, Conscientia , the technical fest of IIST





Achievements of IISTians

Prahasna- Dramatic Society of IIST
First position in Nukkad Natak competition at NIT Surathkal



Prahasna- Dramatic Society of IIST
2nd position in Mime competition at DHANAK 2024, IIST





Achievements of IISTians

The Kalam PRIZE

The topmost academic achievers of B. Tech Aerospace Engineering and Electronics and Communication Engineering (Avionics) students of IIST were provided a unique opportunity to do a nine-month Master of Science program at the world-renowned California Institute of Technology (Caltech), USA. After the M.S. program, they also undergo a two-month internship at Jet Propulsion Laboratory (JPL), a federally-funded research and development center managed by Caltech for NASA. Their higher studies are fully funded through DoS-Caltech Professor Satish Dhawan Endowment Fellowship, and later, they are absorbed in ISRO. California Institute of Technology (Caltech) proudly awards "The Kalam Prize" to one of the best Aerospace engineering Master's Program students whose academic performance was exemplary and showed high potential for future achievements at Caltech, USA. IIST is very proud to mention that five out of the Ten IISTians who did Master's in Aerospace Engineering at Caltech, USA had won the most coveted "The Kalam Prize".

The other winners of "The Kalam Prize"



Mr. Shashank Tomar
2022



Miss. Garima Aggarwal
2021



Mr. Padmanabha Prasanna Simha
2019



Mr. Avinash Chandra
2018



Mr. A. Chaphalkar
2014

JPL Summer Internship – May-July 2023

Buoyed by the success story of IISTians in the MS program offered by CalTech, and their contributions to the CalTech research programs, Jet propulsion Laboratory (JPL) have been extremely enthusiastic to offer two months (May-July) summer internship at their lab for three IIST undergraduate students (one in each undergraduate programme) since 2012. Those IISTians contributed their best to the JPL's research program as well as very much benefitted from their research exposure at JPL. While IIST bore the travel expenditure, visa expenses and medical insurance of the internship student, JPL supported their accommodation and incidental expenses during the internship. Since the summer of 2019, the JPL internship students are allowed to stay at CalTech campus for the entire duration of their internship. Last year, three students successfully completed the internship. In 2023, the below three students successfully completed the internship. This year, the selection process is about to start



Shri Rahul Kumar
3rd year, B. Tech Aerospace



Shri Nithin M
3rd year, B. Tech ECE Avionics



Shri Moksh Bhateja
3rd year, B. Tech Engineering Physics

6. कैम्पस लाईफ



आईआईएसटी वलियमला में स्थित है। मौसम काफी खुशनुमा है। इसका वातावरण प्रदूषण से मुक्त है। आईआईएसटी में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए सुसज्जित छात्रावास हैं। छात्र गतिविधि केंद्र (SAC) का अपना भवन है। एसएसी भवन में सभी छात्रों के लिए केंद्रीकृत मेस की सुविधा है। इसमें एक खुला थिएटर है। इसमें एक बहुउद्देशीय हॉल है जो नवीनतम ऑडियो-वीडियो सिस्टम से सुसज्जित है। इसमें एक इनडोर खेल सुविधा भी है जिसमें जिम, पूल टेबल आदि शामिल

हैं। हाल ही में, एक तितली उद्यान, एक छोटे ट्रैकिंग पथ के साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल मैदान का उद्घाटन किया गया। एयरो क्लब, रोबोटिकी क्लब, खगोल विज्ञान क्लब और गणित क्लब जैसे क्लब वास्तविक समय की चुनौतियों को सामना करने में छात्रों की सहायता करते हैं। छात्र इन क्लबों के कुशल संचलन के लिए जिम्मेदार हैं। कॉन्सेन्शिया छात्रों द्वारा आयोजित एक वार्षिक तकनीकी उत्सव है। यह एक ऐसी घटना है जो छात्रों में उनकी नियमित शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के अलावा छिपे हुए तकनीकी ज्ञान और प्रतिभा को सामने लाती है। धनक छात्रों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, और यह शैक्षिकी के अलावा उनकी सर्वांगीण प्रतिभा को दिखाने में मदद करता है। यह भारत के दक्षिणी भागों में काफी लोकप्रिय है। फ्रेशर डे और फेयरवेल डे छात्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओणम त्योहार एक विशेष घटना है। उस त्योहार के दिन, पूरा आईआईएसटी परिवार रंगोली प्रतियोगिता (केवल प्राकृतिक फूलों के साथ) में और ओणम जुलूस में भाग लेता है और उत्सव ओणम सद्या (मुंह में पानी लाने वाली दावत) के साथ समाप्त होता है। इसके अलावा, छात्र अन्य सभी त्योहार मनाते हैं। त्रिवेन्द्रम में उनकी सप्ताहांत यात्राओं के लिए बस सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिसर में छात्र परामर्शदाताओं सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैफेटेरिया अपने स्वच्छ और स्वादिष्ट व्यंजन के साथ दोस्ती और अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धनक 2024



धनक 2024, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसे 15-18 मार्च, 2024 तक पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। धनक आईआईएसटी में सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक है, और इस साल के संस्करण ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। धनक 2024 बेहतरीन कला, संस्कृति और रचनात्मकता को एक साथ लेकर आया है। इस उत्सव ने विभिन्न संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों को जुड़ने, बातचीत करने और विविधता की भावना को मनाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस वर्ष का विषय था "मंत्रमुग्ध", जीवन के रहस्यमय और जादुई पहलुओं की खोज करने के लिए एक निमंत्रण। धनक 2024 का उद्घाटन श्रीमती मेरिन जोसेफ, पुलिस आयुक्त, कोल्लम और डॉ. मोहन राघवन, अध्यक्ष, विरासत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया। धनक 24 में कई रोमांचक कार्यक्रम और गतिविधियां थीं। प्रतिभागियों ने सांस रोक देने वाली प्रस्तुतियां देखीं और रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस साल के कार्यक्रम की टैगलाइन [#IISTCulturalFest](https://www.iist.ac.in/cultural) थी और धनक 24 ने आयोजकों और प्रतिभागियों को वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया।

7 स्नातक कार्यक्रम: के बारे में

(1) वांतरिक्ष इंजीनियरी (ए ई)

आईआईएसटी का बी. टेक वांतरिक्ष इंजीनियरी कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं पर केंद्रित है और यांत्रिक इंजीनियरी के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखता है। वांतरिक्ष इंजीनियरी के परंपरागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इसमें यांत्रिक अभिकल्प, विनिर्माण विज्ञान एवं अंतरिक्ष गतिकी शामिल हैं। वांतरिक्ष इंजीनियरी में बी. टेक. की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को उड़ान यांत्रिकी, वायुगतिकी, ऊष्मीय एवं नोदन, संरचना एवं अभिकल्प तथा विनिर्माण विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए <https://www.iist.ac.in/academics/curricula> देखें

(2) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी (एविओनिकी) (ईसीई)

इस कार्यक्रम में विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार इंजीनियरी और कंप्यूटर विज्ञान का समावेश है। यह एविओनिकी पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जिसमें वांतरिक्ष तंत्र से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ईसीई में बी. टेक. उपाधि धारण करने वाले छात्र अंकीय संकेत संसाधन, आर एफ एवं सूक्ष्मतरंग संचार, एंटीना, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, नियंत्रण तंत्रों, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, निर्मित बुद्धि, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में उच्च अध्ययन कर सकते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए <https://www.iist.ac.in/academics/curricula> देखें

(3) दोहरी उपाधि कार्यक्रम (डी डी)

इस कार्यक्रम में भौतिकी, गणित और इंजीनियरी के संयुक्त विषयों का अध्ययन शामिल है। दोहरी उपाधि कार्यक्रम के पहले वर्ष में विज्ञान व इंजीनियरी (सभी स्नातक कार्यक्रमों में समान) का बुनियादी पाठ्यक्रम शामिल होगा। कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्षों में मुख्यतः भौतिकी व इंजीनियरी में मूल पाठ्यक्रम शामिल होगा। चौथे वर्ष में छात्र चार स्नातकोत्तर विशेषज्ञताओं में से कोई एक पढ़ेंगे जो विज्ञान निष्णात या एम. टेक. उपाधि प्राप्त करने में सहायक होगा। कार्यक्रम का पाँचवें वर्ष में विशेषज्ञता के क्षेत्र में केवल अनुसंधान परियोजना कार्य ही करने होंगे।

- खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम का लक्ष्य है छात्रों को ग्रहों, नक्षत्रों, मंडाकिनियों, एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में भौतिकी की संकल्पनाओं के अनुप्रयोगों से परिचित कराना।
- ठोस अवस्था भौतिकी में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम का लक्ष्य है- सामान्य रूप से अर्धचालक युक्तियों में एवं युक्ति भौतिकी में अनुसंधान में जीविका प्रदान करना। यह कार्यक्रम संघनित द्रव्य भौतिकी में उच्चतर अनुसंधान करने में इच्छुक छात्रों के लिए अभिकल्पित है।
- पृथ्वी तंत्र विज्ञान में एम. टेक. कार्यक्रम का लक्ष्य है - छात्रों को पृथ्वी तंत्र, इसके घटकों एवं पारस्परिक क्रियाओं से परिचित कराना। पृथ्वी तंत्र, पृथ्वी ग्रह में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के प्रभाव से जुड़ी जटिल प्रणाली है। यह विविध तत्व जैसे वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल के ज़रिए प्रकट है।
- प्रकाशिक इंजीनियरी में एम. टेक. कार्यक्रम की अभिकल्पना का उद्देश्य है- प्रगत प्रकाशिकी उद्योग एवं संबंधित अनुसंधान व विकास संगठनों की वर्तमान और भविष्य की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करना। छात्रों को प्रकाशिकीय इलेक्ट्रॉनिकी, लेन्स अभिकल्पना, प्रकाशिक संविचन व अनुकूलनी प्रकाशिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए <https://www.iist.ac.in/academics/curricula> देखें)

8. वर्ष 2024 में स्नातक कार्यक्रम के लिए सीट मैट्रिक्स

तालिका 8-1: 2024 का स्नातक और दोहरी उपाधि कार्यक्रम

शाखा	सामान्य/ओबीसी (एनसीएल)/एससी/ एसटी	ईडब्ल्यूएस*	पीएमएसएस**	महिला	कुल
वांतरिक्ष इंजीनियरी	60	6	3	6	75
इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी (एविओनिकी)	60	6	3	6	75
दोहरी उपाधि	20	2	0	2	24
कुल	140	14	6	14	174

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

- *: शैक्षिक वर्ष 2019 की शुरुआत से, हाल ही में प्राप्त निर्देश के अनुसार, वांतरिक्ष इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी और दोहरी उपाधि की शाखाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए क्रमशः 6 (छह), 6 (छह), और 2 (दो) सीटों (140 का 10%) का आरक्षण कार्यान्वित किया गया है।
- ** : शैक्षिक वर्ष 2020 की शुरुआत से, एआईसीटीई से हाल ही में प्राप्त निर्देश के अनुसार वांतरिक्ष इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी की शाखाओं में जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के अधीन अधिसंख्य सीटें दी जा रही हैं। इस श्रेणी के तहत चयन एआईसीटीई के पीएमएसएसएस सेल द्वारा आईआईएसटी के निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड का पालन करते हुए किया जाएगा। (विवरणिका का भाग 13 देखें)
- *** महिला अधिसंख्या: आई आई एस टी में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को बनाए रखने के लिए, 10% अतिरिक्त सीटें केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(iv) दोहरी उपाधि कार्यक्रम 5 साल (10 सत्रक) का कार्यक्रम है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समाप्त करने पर छात्रों को इंजीनियरी भौतिकी में बी. टेक. की उपाधि के साथ निम्नलिखित चार स्नातकोत्तर शाखाओं में से किसी एक में विज्ञान निष्णात / एम. टेक. की उपाधि प्रदान की जाती है :

- i. खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में विज्ञान निष्णात
- ii. ठोस अवस्था भौतिकी में विज्ञान निष्णात
- iii. पृथ्वी तंत्र विज्ञान में एम. टेक.
- iv. प्रकाशिक इंजीनियरी में एम. टेक

छात्रों को छठे सत्रक के अंत में उनकी वरीयता और छठे सत्रक तक के शैक्षिक निष्पादन के आधार पर स्नातकोत्तर शाखाएं आबंटित की जाएगी। प्रत्येक शाखाओं के लिए सीट की सूचना छठे सेमेस्टर के दौरान छात्रों को दी जाएगी।

इंजीनियरी भौतिकी में बी. टेक. उपाधि के साथ निकास का विकल्प नहीं है। फिर भी, शैक्षिक निष्पादन के आधार पर निदेशक, आईआईएसटी को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि जिन छात्रों का स्नातकोत्तर स्तर पर निष्पादन असंतोषजनक है, उनको कक्षोन्नति न दें। विभाग द्वारा निर्दिष्ट और शैक्षिक परिषद एवं आईआईएसटी प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर ऐसे छात्रों को इंजीनियरी भौतिकी में बी. टेक. उपाधि के साथ निकास करने का अनुमति दी जाती है।

9. सीट आरक्षण

केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) के लिए लागू भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को लचीले मानदंडों के आधार पर आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। आरक्षण की श्रेणियां और संबंधित प्रतिशत इस प्रकार हैं:

- अनुसूचित जाति (एससी): 15%
- अनुसूचित जनजाति (एसटी): 7.5%
- नॉन-क्रीमी लेयर (एन सी एल) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग (ओ बी सी): 27%
- शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति (पीडी): 5% (समस्तरीय आरक्षण)
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस): नीचे बताए गए अनुसार।

शैक्षिक वर्ष 2019 की शुरुआत से और हाल ही में प्राप्त निर्देश के अनुसार, वांतरिक्ष इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी और दोहरी उपाधि की शाखाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 6 (छह), 6 (छह), और 2 (दो) सीटें (140 का 10%) क्रमशः आरक्षित हैं। आईआईएसटी में स्नातक प्रवेश के लिए केवल उपरोक्त सूचीबद्ध श्रेणियां ही आरक्षण श्रेणियां हैं। स्नातक प्रवेश 2024 के लिए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार सीट मैट्रिक्स तालिका 9 - 1 में दिखाया गया है।

महिला अधिसंख्या: लड़कों और लड़कियों के अनुपात को बनाए रखने के लिए, 10% अतिरिक्त सीटें केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। स्नातक प्रवेश 2024 के लिए महिला अधिसंख्या का सीट मैट्रिक्स तालिका 9 - 2 में दिखाया गया है।

9.1 महत्वपूर्ण टिप्पणी :

(i) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार:

ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस का मूल प्रमाणपत्र निर्धारित प्ररूप परिशिष्ट -I में प्रस्तुत करना होगा। **किसी भी अन्य प्रारूप के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** मूल प्रमाणपत्र निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों में सत्यापन के समय प्रस्तुत

करना होगा। ऐसा न करने पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार:**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्गों के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ. जा./ अ.ज.जा. का मूल प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- II) में प्रस्तुत करना होगा। **किसी भी अन्य प्रारूप के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** प्रलेखों की मूल प्रति निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों में सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत रिक्त सीटों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के तहत रिक्त सीटें अन्य किसी वर्ग के आवेदकों से भरी नहीं जाएंगी।

(iii) **ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार:**

अन्य पिछड़े वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं जातियों / जनजातियों को दिया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिनको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा परिभाषित नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति को भी पूरा करना होगा। इस वर्ग के तहत रिक्त सीटों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा।

आरक्षण का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा **1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद जारी मूल प्रमाण पत्र** निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट -III) में प्रस्तुत करना होगा। **किसी भी अन्य प्रारूप के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** मूल प्रमाणपत्र निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों में सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अन्य पिछड़े वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को भी परिशिष्ट - IV में दिए गए प्रारूप में एक घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) **शारीरिक रूप से अपंग उम्मीदवार:**

शारीरिक रूप से अपंग उम्मीदवारों को 5% सीटें आरक्षित (समस्तरीय आरक्षण) हैं। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा **जिन्हें कम से कम 40% की शारीरिक अपंगता हो।** इस वर्ग के तहत लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को **जिला चिकित्सा बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल पत्रों** को निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों में सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर शारीरिक रूप से अपंग वर्ग के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

तालिका 9-1 : श्रेणी वार सीट मैट्रिक्स

शैक्षिक कार्यक्रम	सामान्य	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	कुल	ईडब्ल्यूएस*	पीएमएसएस**
वांतरिक्ष इंजीनियरी	30 (1)	16 (1)	9	5 (1)	60	6	3
इलक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी(एविओनिकी)	30 (1)	16 (1)	9 (1)	5	60	6	3
दोहरी उपाधि	10 (1)	6	3	1	20	2	0
कुल	70	38	21	11	140	14	6

तालिका 9-2 महिला अधिसंख्या ****सीट मैट्रिक्स

	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल
वांतरिक्ष इंजीनियरी	3	2	0	1	6
इलक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी (एविओनिकी)	3	2	1	0	6
दोहरी उपाधि	1(1)	0	1	0	2
कुल	7	4	2	1	14

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

- (1) कोष्ठक में दी गई संख्या यह दिखाती है कि इसमें एक दिव्यांग आवेदक शामिल है।
- (2) *,** एवं ***: तालिका 9.1 में दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का संदर्भ लें।

10 सत्रक शुल्क संरचना

शैक्षिक वर्ष 2024-25 से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए स्नातक एवं दोहरी उपाधि शुल्क संरचना तालिका 10-1 में प्रदान की गई है।

तालिका 10-1 स्नातक कार्यक्रम के लिए शुल्क संरचना का विवरण

शुल्क का विवरण	राशि (in Rs.)
एकमुश्त शुल्क	
प्रवेश शुल्क (वापस नहीं दिया जाएगा)	500
परिसर विकास शुल्क	1000
संस्थान एवं पुस्तकालय जमा (वापस दिया जाएगा)	5000
पूर्वछात्र शुल्क ¹	500
दीक्षांत एवं उपाधि शुल्क ¹	2000
कुल	9000
सेमस्टर शुल्क	
ट्यूशन शुल्क ²	62500
कंप्यूटर शुल्क	750
इंटरनेट शुल्क	250
पुस्तकालय शुल्क	1000
परीक्षा शुल्क	500
पंजीकरण एवं नामांकन शुल्क	200
सांस्कृतिक शुल्क	500
खेलकुद सुविधा शुल्क	250
चिकित्सा एवं बीमा शुल्क	2000
कुल	67950

होस्टल एवं मेस शुल्क प्रति सेमस्टर	
होस्टल स्थापना प्रभार	5000
होस्टल किराया	3000
विद्युत एवं जल प्रभार	750
पांच महीनों के लिए मेस सेमस्टर (अग्रिम) प्रभार	15000
वैकल्पिक: दीर्घावकाश मेस प्रभार (प्रति महीना)	3000
दीर्घावकाश मेस प्रभार के बिना कुल	23750
प्रवेश के समय कुल योग	98200
हर सेमस्टर कुल योग	91700

- अंतिम सत्रक शुल्क के साथ एकत्रित किया जाएगा।
- ट्यूशन शुल्क
 - अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी- एनसीएल मातापिता का वार्षिक आय > पाँच लाख : ट्यूशन शुल्क - ₹62500.00
 - अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी- एनसीएल मातापिता का वार्षिक आय $\leq$ ₹. पाँच लाख: ट्यूशन शुल्क - ₹20850.00
 - अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी- एनसीएल मातापिता का वार्षिक आय < ₹एक लाख: ट्यूशन शुल्क - शून्य
 - एस सी / एस टी / पी डी : ट्यूशन शुल्क नहीं है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी एनसीएल श्रेणियों के लिए ट्यूशन शुल्क में छूट मातापिता की वार्षिक आय के सत्यापन के बाद लागू की जाएगी।
- पूरक परीक्षा शुल्क : ₹100 प्रति पेपर

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

- प्रथम सत्रक शुल्क का भुगतान प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवंटित सीट स्वीकार करते समय ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना है। शेष सत्रकों के लिए शुल्क का भुगतान अधिसूचित तिथि से पहले प्रत्येक सत्रक की शुरुआत में किया जाना चाहिए।
- प्रवेश के समय प्रेषित राशि
 - सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस ₹20,700/- (एक मुश्त शुल्क (दीक्षांत समारोह + पूर्व छात्र) + (सत्रक शुल्क – ट्यूशन शुल्क) + होस्टल स्थापना प्रभार + होस्टल किराया + विद्युत प्रभार
 - अनु. जा/अनु. ज. जा./दिव्यांग: ₹20,700/-
- संस्थान में अध्ययन आरंभ करते वक्त शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- भोजन सहित होस्टल प्रभार केवल सत्रक की शैक्षिक अवधि के लिए लागू होते हैं और इसलिए दीर्घावकाश के दौरान हुई खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन छठे सत्रक के अंत में छात्रों के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता कार्यक्रम के समय यह प्रभार लागू है।
- ट्यूशन शुल्क के सिवाए, अन्य मदों पर संशोधन हो सकता है, लेकिन किसी भी संशोधन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।

11. मेधा छात्रवृत्ति

- क. वर्ष 2024 – 25 में (स्नातक/दोहरी उपाधि) प्रवेश पाने वाले पांच मेधावी छात्र प्रथम वर्ष के लिए पूर्ण रूप से शुल्क माफी के लिए हकदार होंगे, जिन्होंने जेईई प्रगत परीक्षा 2024 में 1000 तक का AIR (अखिल भारतीय रैंक) प्राप्त किया है। हालांकि उन्हें बाद के वर्ष के लिए पूर्ण रूप से शुल्क माफी के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 10 पाइन्ट स्केल में 9.0 एवं उससे ऊपर का सीजीपीए बनाए रखना होगा।
- ख. वर्ष 2024 – 25 में (स्नातक/दोहरी उपाधि) में प्रवेश पाने वाले जो छात्र **निर्दिष्ट सेमस्टर में 10** पाइन्ट स्केल में 9.0 एवं उससे ऊपर का सीजीपीए प्राप्त करते हैं, उन्हें अगले सत्रक में ट्यूशन शुल्क में 50 प्रतिशत की माफी मिलेगी। प्रत्येक कार्यक्रम में शुल्क माफी पाने वालों की संख्या प्रवेश प्राप्त छात्रों के दस प्रतिशत तक सीमित होगी।

12. इसरो/अंतरिक्ष विभाग आमेहन नीति

इसरो/अंतरिक्ष विभाग द्वारा विविध विशेषज्ञताओं में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर स्नातक और दोहरी उपाधि (बी.टेक. वांतरिक्ष, बी. टेक. इलक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी (एविओनिकी) तथा खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, पृथ्वी तंत्र विज्ञान, ठोस अवस्था भौतिकी एवं प्रकाशिक इंजीनियरी में दोहरी उपाधि) छात्र वैज्ञानिक/इंजीनियरी – एससी के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि **सभी श्रेणियों** के छात्रों के लिए लागू निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें।

- जो छात्र छठे सेमस्टर (बी.टेक)/आठवें सेमस्टर (दोहरी उपाधि) के अंत में 10 पाइन्ट स्केल में 7.0 या उससे ऊपर का सीजीपीए प्राप्त करते हैं, वे इसरो मुख्यालय द्वारा आयोजित नौकरी स्थानन साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
- इसरो विशेषज्ञ समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा और पैनेल सूची तदनुसार तैयार की जाएगी।
- केंद्रों/यूनिटों में उम्मीदवारों की तैनाती संबंधी सूचना इससे मुख्यालय द्वारा दी जाएगी।
- छात्रों को बी.टेक. और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों के अंत में 10 पाइन्ट स्केल में न्यूनतम 7.5 क्युमुलेटिव ग्रेड पाइन्ट ऐवरेज (सीजीपीए) प्राप्त करना होगा तथा प्रस्ताव पत्र जारी करने के लिए पात्र होने हेतु क्रमशः 4 (चार) एवं 5 पांच (वर्षों) में बी. टेक. और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
- छात्रों को इसरो के मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से स्वस्थ होना आवश्यक है।

13. प्रवेश के लिए पात्रता

जो उम्मीदवार आईआईएसटी में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक हैं उन्हें नीचे दिए गए **सभी** पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

1. **नागरिकता** : भारतीय नागरिक ही आईआईएसटी में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकता है।

2. **प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड धारकों के लिए**

पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

- जिन उम्मीदवारों के पास ओसीआई/पीआईओ कार्ड है, वे यूजी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ओसीआई/पीआईओ कार्ड रखने वाले उम्मीदवारों का चयन जेईई (एडवांस्ड) 2024 परीक्षा पर आधारित होगा और उम्मीदवारों को केवल सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों के पास ओसीआई/पीआईओ कार्ड है, उन्हें शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करना होगा जिसमें एकमुश्त शुल्क, सेमेस्टर शुल्क और छात्रावास और मेस शुल्क शामिल हैं।

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल भारतीय नागरिकों को ही भारत सरकार की नौकरियों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए, आईआईएसटी से बी.टेक की उपाधि और दोहरी उपाधि प्राप्त छात्र और जिनके पास ओसीआई/पीआईओ कार्ड है, वे इसरो/अंतरिक्ष विभाग आमेजन के लिए पात्र नहीं होंगे।

3.जन्म तिथि : सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग – एन सी एल वर्ग के उम्मीदवारों की जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 को या उसके बाद की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और शारीरिक अपंगता से संबंधित वर्गों के आवेदकों की जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1994 को या उसके बाद की होनी चाहिए।

उच्च विद्यालय/ प्रथम बोर्ड या समतुल्य प्रमाण पत्र में अभिलिखित जन्म तिथि को ही स्वीकार किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उम्मीदवारों को सीट स्वीकार करते समय सक्षम प्राधिकारी से जन्म तिथि का उल्लेख करते हुए प्रामाणिक प्रलेख प्रस्तुत करना चाहिए।

4.योग्यता परीक्षाओं में अपेक्षित न्यूनतम अंक:

उम्मीदवारों को बारहवीं कक्षा (या समकक्ष - योग्यता परीक्षाओं की सूची के लिए नीचे देखें) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार के लिए कुल अंक कम से कम 65% होने चाहिए। कुल अंक का आकलन करने के लिए निम्नलिखित पांच विषयों में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा:

- भौतिकी
- रसायन विज्ञान
- गणित
- एक भाषा (यदि उम्मीदवार ने एक से अधिक भाषाएं ली हैं, तो उस भाषा पर विचार किया जाएगा जिसमें उच्चतम अंक हैं)
- उपरोक्त चार के अलावा कोई इतर विषय (उस विषय पर विचार किया जाएगा जिसमें उच्चतम अंक हैं)

5. महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

- i. कुल अंकों की गणना के लिए, यदि किसी विषय में दिया गया अंक 100 में नहीं है, तो अंक को 100 तक बढ़ाया जाएगा ताकि कुल अंक 500 में हो।
- ii. यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट पर अंकों का बराबर प्रतिशत प्रदान किए बिना केवल अंक ग्रेड प्रदान करता है, तो उम्मीदवार को समकक्ष अंकों को निर्दिष्ट करते हुए बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और प्रवेश के समय इसे जमा करना चाहिए।
- iii. उन उम्मीदवारों के लिए जो 2023 में बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे, लेकिन 2024 में फिर से उपस्थित हुए, दो प्रदर्शनों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा।
- iv. यदि कोई बोर्ड कक्षा XI और कक्षा XII दोनों परीक्षाओं (10 + 2 प्रणाली में) पर विचार करते हुए कुल अंक देता है, तो केवल कक्षा XII के अंकों पर विचार किया जाएगा।
- v. यदि कोई बोर्ड व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त अंक नहीं देता है, लेकिन केवल कुल अंक देता है, तो बोर्ड द्वारा दिए गए कुल अंकों को उसी प्रकार माना जाएगा।

- vi. यदि कोई उम्मीदवार 2023 में बारहवीं कक्षा (या समकक्षा) उत्तीर्ण करता है, लेकिन सुधार या किसी अन्य कारण से 2024 में आवश्यक विषयों (ऊपर उल्लिखित) में से कोई भी लिखता है, तो कुल प्रतिशत की गणना आवश्यक विषयों में दो प्रदर्शनों में से सर्वश्रेष्ठ पर विचार करके की जाएगी।
- vii. किसी भी अन्य मामलों के लिए, आईआईएसटी प्रवेश समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा।

6. योग्यता परीक्षाओं की सूची: निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता परीक्षा के रूप में स्वीकार की जाएगी।

- किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्र / राज्य बोर्ड जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नई दिल्ली, कौन्सिल फॉर इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (आईएससीई), नई दिल्ली आदि द्वारा आयोजित 10+2 प्रणाली की अंतिम परीक्षा।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट या दो वर्ष की प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जोइन्ट सर्विसस विंग के दो वर्ष के पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा न्यूनतम पाँच विषयों के साथ आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा
- भारत में या किसी विदेशी देश के किसी पब्लिक स्कूल / बोर्ड/ विश्वविद्यालय परीक्षा जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 10+2 प्रणाली के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
- व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
- प्रगत स्तर पर जनरल सर्टिफिकेट एड्युकेशन (जे सी ई) परीक्षा (लंदन / कैम्ब्रिज/ श्रीलंका)
- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिडट कार्यालय, जनीवा के अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिडट डिप्लोमा संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र।

यदि प्रासंगिक योग्यता परीक्षा एक सार्वजनिक परीक्षा नहीं है, तो उम्मीदवार को पहले स्तर पर कम से कम एक सार्वजनिक (बोर्ड या प्री-यूनिवर्सिटी) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

7. जेईई (एडवांस्ड) 2024 परीक्षा में अपेक्षित न्यूनतम अंक

उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) - 2024 परीक्षा देनी होगी, ताकि वे आईआईटी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) - 2024 के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें और तालिका 13 - 1 एवं तालिका 13 - 2 में बताए गए न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त कर सकें।

तालिका 13-1 : संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) - 2024 में अपेक्षित न्यूनतम अंक

क्रम सं.	प्रवर्ग	न्यूनतम अंक
1	सामान्य	कुल मिलाकर 14 प्रतिशत अंक एवं प्रत्येक विषयों (भौतिकी, रसायन एवं गणित) में 3 प्रतिशत अंक
2	ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल	कुल मिलाकर 12.6 प्रतिशत अंक एवं प्रत्येक विषयों (भौतिकी, रसायन एवं गणित) में 2.7 प्रतिशत अंक
3	एससी/एसटी/पीडी	कुल मिलाकर 7 प्रतिशत अंक एवं प्रत्येक विषयों (भौतिकी, रसायन एवं गणित) में 1.5 प्रतिशत अंक

तालिका 13-2 : संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) – 2024 में अपेक्षित न्यूनतम अंक

जेईई (एडवांस्ड) 2024 में आईआईएसटी कट-ऑफ अंक				
वर्ग	भौतिकी	रसायन	गणित	कुल
सामान्य	3	3	3	50
ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल	3	3	3	45
एससी/एसटी/पीडी	1	1	1	25

14. महत्वपूर्ण तिथियाँ

स्नातक प्रवेश 2024 की महत्वपूर्ण तिथियाँ तालिका 14-1 में हैं।

तालिका 14-1 : स्नातक प्रवेश 2024 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

जेईई एडवांस्ड का परिणाम	जून 09, 2024
ऑनलाइन पंजीकरण खुलने एवं शाखा वरीयताएं भरने की तारीख	जून 03, 2024, 10:00 घंटे
ऑनलाइन पंजीकरण खुले रहने की अंतिम तिथि	जून 14, 2024, 23:59 घंटे
आईआईएसटी प्रवेश रैंक सूची का प्रकाशन	जून 15, 2024, 17:00 घंटे
शाखा वरीयताओं का संशोधन करने की अंतिम तिथि	जून 16, 2024, 23:59 घंटे
सीट आवंटन/स्वीकृति दौर	सीट आवंटन / स्वीकृति दौर
प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के पंजीकरण का पुनर्वैधीकरण	जून 17, 2024 से शुरू होकर जुलाई 08, 2024 तक निर्धारित है।
आईआईएसटी में अध्ययन आरंभ**	जुलाई 22, 2024, (रिपोर्टिंग समय : 10:00 घंटे)
ऑनलाइन स्पोट प्रवेश, सूचना, यदि आवश्यक हो तो, (रिक्तियां होने की स्थिति में)	जुलाई 09, 2024, 14:00 घंटे
ऑनलाइन स्पोट प्रवेश पंजीकरण, यदि आवश्यक हो तो, (यह केवल सीट आवंटन के आखिरी दौर के बाद प्रतीक्षा सूची के शेष उम्मीदवारों के लिए लागू होगा)	जुलाई 10, 2024, 09:00 घंटे से जुलाई 12, 2024, 23:59 घंटे
ऑनलाइन स्पोट प्रवेश, यदि आवश्यक हो तो, (यह केवल सीट आवंटन के आखिरी दौर के बाद प्रतीक्षा सूची के शेष उम्मीदवारों के लिए लागू होगा)	जुलाई 12, 2024 - जुलाई 14, 2024
प्रवेश समाप्त होने की तिथि	जुलाई 15, 2024
कक्षाओं का प्रारंभ	जुलाई 29, 2024
समावेशन कार्यक्रम	जुलाई 22, 2024 - जुलाई 26, 2024

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

- i. उपरोक्त तिथियां संभाव्य हैं। तिथियों में परिवर्तन होने पर उसे आईआईएसटी प्रवेश वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

15. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

आईआईएसटी में स्नातक एवं दोहरी उपाधि कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (<http://admission.iist.ac.in>) में पंजीकरण करते हुए आईआईएसटी में प्रवेश हेतु अलग से आवेदन देना चाहिए और नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए :

(1) पंजीकरण:

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (<http://admission.iist.ac.in>) पर जाएं और **स्नातक प्रवेश -2024** का लिंक चुनें। दिए गए निर्देशों का पालन करें और सभी विवरण दें। जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उनको सिस्टम द्वारा जनित आईआईएसटी पंजीकरण संख्या दी जाएगी। उम्मीदवारों को एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा। किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए पासवर्ड सुरक्षित रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी।

उम्मीदवारों को वही तस्वीर की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका उन्होंने जेईई (प्रगत) 2024 पंजीकरण के लिए उपयोग किया है।

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि पंजीकरण करने से पहले भाग 13 में दिए गए विस्तृत पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें।

(2) पंजीकरण शुल्क भुगतान:

पंजीकरण शुल्क का भुगतान **केवल** ई-भुगतान मोड के माध्यम से होता है और यह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (<http://admission.iist.ac.in>) पर जाकर और **PAY REGISTRATION FEE** लिंक पर क्लिक करके किया जाना चाहिए। भुगतान की रसीद की पुष्टि पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से की जाएगी। पंजीकरण शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों के लिए विस्तृत रूप से तालिका 15-1 में है।

तालिका 15-1: पंजीकरण शुल्क

क्रम. सं.	प्रवर्ग	राशि (INR)
1.	सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल के पुरुष उम्मीदवार	1000
2.	सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल के महिला उम्मीदवार	500
3.	एससी/एसटी/पीडी के उम्मीदवार	500

11 आईआईएसटी प्रवेश रैंक सूची का प्रकाशन:

- **केवल** उन्हीं पात्र उम्मीदवारों के लिए श्रेणीगत आईआईएसटी प्रवेश रैंक सूची जनित की जाएगी जिन्होंने आईआईएसटी में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण किया हो और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया हो।

- जेईई (प्रगत) 2024 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आईआईएसटी प्रवेश रैंक सूची तैयार की जाएगी बशर्ते कि उम्मीदवारों को तालिका 13.1 एवं 13.2 में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा।
- बराबर की कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच टाई को अवरोही क्रम में एक एक करके नीचे बताई गई प्रक्रियानुसार हल किया जाएगा।
 - जिस आवेदक ने गणित में उच्चतर अंक प्राप्त किया है, उसको उच्चतर रैंक दी जाएगी।
 - यदि इससे भी टाई नहीं टूटा, तो जिस आवेदक ने भौतिकी में उच्चतर अंक प्राप्त किया है उसको उच्चतर रैंक दी जाएगी।
 - यदि इसके बाद भी अंक बराबर रहता है तो जिस आवेदक ने संबंधित वर्ग में जेईई (मुख्य) 2024 में उच्चतर रैंक प्राप्त किया है, उसको उच्चतर रैंक दी जाएगी।
- गत तीन सालों के आईआईएसटी के यूजी प्रवेश का आंकड़ा तालिका 15-2 में दिए गए हैं।

तालिका 15-2 : आईआईएसटी स्नातक प्रवेश सांख्यिकी:
2023, 2022 और 2021 के जेईई (प्रगत) अंक का प्रारंभिक और समापन प्रतिशतता

2023 के जेईई (प्रगत) अंक का प्रारंभिक और समापन प्रतिशतता

Category	Bachelor of Technology (B. Tech)				Dual Degree (B.Tech + Master of Science/ Master of Technology)	
	Aerospace Engineering		Electronics and Communication Engineering			
General	39.17	29.44	38.89	28.06	57.22	29.44
EWS	28.61	26.11	27.78	25.56	25.56	25.56
OBC	28.33	23.89	26.94	24.17	27.22	23.89
SC	20.83	15.83	19.72	14.44	16.11	15.28
ST	18.33	12.50	16.11	11.94	11.67	11.67

2022 के जेईई (प्रगत) अंक का प्रारंभिक और समापन प्रतिशतता

Category	Bachelor of Technology (B. Tech)				Dual Degree (B.Tech + Master of Science/ Master of Technology)	
	Aerospace Engineering		Electronics and Communication Engineering			
	Open (%)	Close (%)	Open (%)	Close (%)	Open (%)	Close (%)
General	53.61	21.39	29.44	20.83	31.94	19.72
EWS	20.28	18.06	20.83	18.06	18.06	17.78
OBC	20.28	17.50	20.28	17.22	18.61	17.22
SC	18.89	11.67	13.89	11.39	10.83	10.28
ST	13.06	9.44	10.00	9.44	8.61	8.61

Category	Bachelor of Technology (B. Tech)				Dual Degree (B.Tech + Master of Science/ Master of Technology)	
	Aerospace Engineering		Electronics Communication Engineering		and	
	Open (%)	Close (%)	Open (%)	Close (%)	Open (%)	Close (%)
General	46.67	26.94	50.83	26.39	41.67	27.22
EWS	25.28	23.89	25.00	23.06	22.78	22.78
OBC	26.67	20.28	24.44	20.00	25.56	19.44
SC	20.83	10.83	14.72	9.72	21.94	13.33
ST	21.11	8.89	8.33	8.33	8.06	8.06

(4) शाखा वरीयताएँ भरने से संबंधित विवरण :

- जिन उम्मीदवारों का नाम आईआईएसटी प्रवेश रैंक सूची में दिखाई देते हैं, उन्हें पंजीकरण के समय स्नातक एवं दोहरी उपाधि कार्यक्रमों के लिए वरीयता के क्रम में अपनी पसंदीदा शाखा भरना होगा। शाखा वरीयता के बिना पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा। शाखा वरीयता का संशोधन करने की अंतिम तिथि तालिका 14-1 में दी है।
- तालिका 14-1 में दी गई निर्दिष्ट तिथियों के बाद, वरीयताएं लॉक हो जाएंगी। आगे पसंदीदा शाखा / वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- उम्मीदवारों को अपनी रुचि के अनुसार शाखा चुनने की सलाह दी जाती है।
- तीनों विकल्पों को भरना अनिवार्य नहीं है।

(5) सीट आबंटन / स्वीकृति दौर:

- सीट आवंटन/स्वीकृति दौर से संबंधित विस्तृत अनुसूची वेबसाइट में अधिसूचित किया जाएगा।
- उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, उम्मीदवारों द्वारा भरी गई वरीयताओं के अनुसार योग्यता के क्रम में तीन शाखाओं में सीट आबंटन किया जाएगा।
- जो उम्मीदवार सीट आबंटन से संतुष्ट हैं, उन्हें FREEZE विकल्प चुनना होगा और सीट की स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी।
- जो उम्मीदवार FREEZE विकल्प चुनते हैं, उनकी उच्च वरीयताओं पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह विकल्प चुनने से पहले सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
- यदि कोई उम्मीदवार अपनी उच्च वरीयताओं पर विचार किए जाने के साथ साथ अपनी आवंटित सीट की पुष्टि भी करना चाहे तो उन्हें SLIDE विकल्प चुनना होगा और सीट की स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी।
- उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर और योग्यता के आधार पर, उम्मीदवारों द्वारा भरे गए वरीयता क्रम के अनुसार शाखा विकल्प स्वतः SLIDE UP हो जाएगा। इसका भी स्थगन आईआईएसटी में प्रवेश करने के बाद स्नातक प्रवेश -2024 के समापन तक होगा।

- जो उम्मीदवार सीट आबंटन दौर के दौरान FREEZE या SLIDE विकल्पों का चयन करते हैं उनको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए सीट स्वीकार करना होगा :
 - उम्मीदवारों को वेबसाइट में अधिसूचित की जाने वाली निर्दिष्ट तारीख / समय से पहले 20700 रुपये की प्रथम सत्रक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा (शेष राशि आईआईएसटी में आने के बाद एकत्रित की जाएगी)। यदि प्रथम सत्रक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने में असफल हो जाए तो आवंटित सीट से वंचित हो जाएंगे और आगे की सीट आबंटन के लिए उम्मेदवार पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - उपरोक्त भुगतान केवल ई-भुगतान मोड के माध्यम से है और यह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (<http://admission.iist.ac.in>) पर जाकर और FIRST SEMESTER FEE लिंक पर क्लिक करके किया जाना चाहिए। भुगतान की रसीद की पुष्टि पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से की जाएगी।
 - उम्मीदवारों को वेबसाइट में अधिसूचित की जानी वाली विनिर्दिष्ट तारीख / समय से पहले निम्नलिखित प्रलेखों की स्कैन की गई प्रतिलिपियां अपलोड करनी होंगी।
 - यदि जन्म तिथि का उल्लेख किया हो तो दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र।
 - 12 वीं कक्षा (या समतुल्य परीक्षा) की अंक तालिकाएँ (2023 और / या 2024 की परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के लिए)।
 - श्रेणी (ईडब्ल्यूएस / ओबीसी-एनसीएल / एससी / एसटी / पीडी) प्रमाण पत्र।
 - जिस संस्थान में आखिरी बार पढ़ाई की थी वहाँ से ट्रांसफर प्रमाण पत्र
 - उम्मीदवार का आधार कार्ड
 - UPLOAD DOCUMENTS लिंक पर क्लिक करके प्रलेख अपलोड किए जाने चाहिए।
 - प्रलेखों का सत्यापन होने के बाद अनंतिम ADMIT CARD जनित किया जाएगा।
 - सूचना मिलने पर उम्मीदवार ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल में लॉगिन करते हुए इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
 - उम्मीदवारों को आईआईएसटी में अध्ययन आरंभ करते वक्त ADMIT CARD प्रस्तुत करना है।
- सीट आबंटन के अगलेदौर में विचार किए जाने के लिए प्रकाशित प्रतीक्षा सूची के पंजीकृत उम्मीदवारों को पुनः वैधीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(6) आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में सीट आवंटन शिफ्ट:

- जिन उम्मीदवारों ने FREEZE विकल्प चुने हुए आरक्षित श्रेणी के तहत आवंटित सीटों को स्वीकार किया है, श्रेणी से एवं सामान्य रैंक सूची से उनकी उच्चतम वरीयताएं हटा दी जाएगी। बाद के दौर में, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, यदि वे सामान्य श्रेणी के तहत सीट प्राप्त करते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आरक्षित श्रेणी के तहत उनकी आवंटित सीट को खाली कर दी जाएगी।
- जिन उम्मीदवारों ने SLIDE विकल्प चुने हुए आरक्षित श्रेणी के तहत आवंटित सीटों को स्वीकार किया है, दोनों श्रेणियों में एवं सामान्य रैंक सूची में उनकी उच्चतम वरीयताएं सुरक्षित रखी जाएगी। बाद के दौर में, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, सीट आवंटन तथा सामान्य श्रेणी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार आगे बढ़ेगी।

(7) स्वीकृत सीटों का परित्याग करना:

जिस उम्मीदवार ने प्रथम सत्रक शुल्क का भुगतान करके सीट स्वीकार कर ली है और अपनी स्वीकृत सीट को त्याग करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर जाकर WITHDRAWAL विकल्प का चयन करके शुल्क वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण दर्शाते हुए निकासी फॉर्म भर सकते हैं। धन वापसी नीति (यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार) नीचे दी गई है। भुगतान किए गए प्रथम सत्रक शुल्क से राशि की कटौती की जाएगी।

तालिका 15-3 2024-2025 के स्नातक प्रवेश की धन वापसी नीति

क्रम. सं.	कुल शुल्क का धन वापसी की प्रतिशतता	उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेने की सूचना देने का समय	कटौती की जाने वाली राशि
1.	100%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से पहले 15 दिवस या उससे अधिक	प्रक्रमण प्रभार के रूप में 1000/- रुपये
2.	90%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से पहले 15 दिवस से कम	शुल्क का 10 प्रतिशत + चिकित्सा + आनुपातिक होस्टल प्रभार
3.	80%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद 15 दिवस या उससे कम	शुल्क का 20 प्रतिशत + चिकित्सा + आनुपातिक होस्टल प्रभार
4.	50%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद 30 दिवस या उससे कम लेकिन 15 दिवस से ज्यादा	शुल्क का 50 प्रतिशत + चिकित्सा + आनुपातिक होस्टल प्रभार
5.	0%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद 30 दिवस से अधिक	औपचारिक रूप से अधिसूचित प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिवस के बाद धन वापस नहीं किया जाएगा।

*प्रवेश के समय पर यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप बदला जा सकता है।

16. सीट आवंटन / स्वीकृति दौर की अनुसूची

सीट आवंटन / स्वीकृति शुरू होने की संभाव्य तिथि तालिका 14-1 में दी गई है। विस्तृत अनुसूची वेबसाइट में अपलोड की जाएगी।

17. विशेष ऑनलाइन या स्पोट प्रवेश दौर

नियमित सीट आवंटन ऑनलाइन दौर के अंत में, यदि कोई रिक्ति मौजूद है, तो उन सीटों को विशेष ऑनलाइन या स्पोट प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। जो उम्मीदवार आईआईएसटी यूजी प्रवेश 2024 प्रतीक्षा सूची में हैं, वे ऑनलाइन स्पोट प्रवेश में भाग लेने के लिए पात्र हैं। प्रतीक्षा सूची के जो उम्मीदवार सीट पाने की इच्छा रखते हैं, वे प्रवेश पोर्टल पर स्पोट एडमिशन दौर के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अतिरिक्त स्पोट प्रवेश पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन स्पोट दौर के लिए पंजीकरण करना होगा ताकि उन्हें आईआईएसटी की यूजी प्रवेश प्रक्रिया में विचार किया जा सके।

18. आईआईएसटी में शिक्षा आरंभ

जिन उम्मीदवारों ने सीट आवंटन स्वीकार कर लिया है, उन्हें तालिका 14-1 में निर्दिष्ट तिथि पर आईआईएसटी में शामिल होना है। उम्मीदवारों को सूचित तिथि से पहले निर्धारित प्रारूप (उनके प्रवेश के दौरान प्रदान किया जाएगा) में एक चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

19. स्थानन

वर्ष 2023 तक जिन छात्रों ने न्यूनतम सीजीपीए मानदंड हासिल किया है, उन्हें इसरो के विविध केंद्रों में आमेलित किया जाएगा। अब तक, 1329 छात्र इसरो के विभिन्न केंद्रों में शामिल हो चुके हैं। गत वर्ष 98 छात्रों को प्रवेश मिला है जिनका विवरण तालिका 19-1 में दिया गया है।

तालिका 19 - 1 इसरो / अंतरिक्ष विभाग का आमेलन विवरण (2011-2023)

वर्ष	ईई	एवी/ईसीई*	पीएस/डीडी**	कुल
2011	41	54	22	117
2012	42	52	30	124
2013	39	54	29	122
2014	35	43	26	104
2015	44	45	13	102
2016	43	39	21	103
2017	39	42	23	104
2018	36	33		69
2019	42	38	26	106
2020	38	43	19	100
2021	42	34	11	87
2022	38	40	15	93
2023	41	44	13	98

*वर्ष 2018 में बी.टेक एवियोनिक्स का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी (एवियोनिक्स) कर दिया गया।

**वर्ष 2014 में भौतिकी विज्ञान में बी. टेक. को पांच साल की दोहरी उपाधि कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया गया। पहला बैच 2014 में प्रारंभ हुआ तथा 2019 में उत्तीर्ण हुआ।

वर्ष 2021 प्रवेश से, अंतरिक्ष विभाग/इसरो में आमेलन में संशोधन किया गया है और अधिक जानकारी के लिए भाग 12 देखें।

स्थानन कक्ष, आईआईएसटी के छात्रों के लिए कैंपस स्थानन की व्यवस्था करने हेतु विविध कंपनियों के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। पिछले कुछ वर्षों में आईआईएसटी में जिन कंपनियों ने दौरा किया है, उनकी सूची नीचे दी गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए <https://iist.ac.in/placementcell> देखें।

जिन कंपनियों ने आईआईएसटी का दौरा किया उनका विवरण



20. संपर्क विवरण विवाद निवारण

संपर्क पता	अध्यक्ष (स्नातक प्रवेश) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान वलियमला पोस्ट, तिरुवनंतपुरम – 695 547 केरल, भारत
ई – मेल	ugadmission@iist.ac.in <u>(केवल ई-मेल से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।)</u>
हेल्प डेस्क संपर्क नंबर	लैंडलाइन नंबर : 0471-2568477, 478, 618, 418 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:00 बजे तक) फैक्स: 0471-2568556 हेल्प डेस्क केवल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में ही मदद करेगा। अन्य प्रश्नों का उत्तर केवल ई-मेल से ही दिया जाएगा।

20 विवाद निवारण

आईआईएसटी स्नातक प्रवेश से संबंधित कोई भी शिकायत सबसे पहले अध्यक्ष, स्नातक प्रवेश – 2024 आईआईएसटी को भेजनी चाहिए। निदेशक, आईआईएसटी ऐसे शिकायतों के संबंध में अपील प्राधिकारी होंगे। केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालय ही आईआईएसटी स्नातक प्रवेश से संबंधित सभी मामलों पर न्यायनिर्णय ले सकते हैं।

APPENDICES

APPENDIX - I

FORM-GEN-EWS

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

1. This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph in attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Officer _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested photograph
of the applicant

The income and assets of the families as mentioned
would be required to be certified by an officer not
below the rank of Tehsildar in the States/UTs.

* **Note1:** Income covered all sources i.e. salary, agricultural, business, profession, etc.

** **Note2:** The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents are siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*** **Note3:** The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

APPENDIX - II

FORM-SC/ST

SC/ST Certificate Format

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTES (SC) AND SCHEDULED TRIBES (ST) CANDIDATES

1. This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari* _____ son/daughter*
of _____ of Village/Town* _____
District/Division* _____ of State/Union Territory* _____ belongs to
the _____ Scheduled Caste / Scheduled Tribe* under :-

- * The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- * The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951
- * The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002]

- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;
- * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976;
- * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;
- * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;
- * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;
- * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967;
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;
- * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978;
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978;
- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989;
- * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990;
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991;
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 1991.

2. * This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes* Certificate issued to Shri /Shrimati*
_____ father/mother* of Shri /Shrimati /Kumari* _____ of Village/Town*
_____ in District/Division* _____ of the State /Union
Territory* _____ who belong to the Caste / Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste /
Scheduled Tribe* in the State / Union Territory* _____ issued by the _____ dated
_____.

3. Shri/ Shrimati/ Kumari * _____ and / or* his / her* family ordinarily reside(s)** in Village/Town*
_____ of _____ District/Division* of the State Union Territory* of _____.

Signature: _____
Designation _____
(with seal of the Office)

Place: _____ State/Union Territory* _____

Date: _____

* Please delete the word(s) which are not applicable.
Applicable in the case of SC/ST Persons who have migrated from another State/UT.
IMPORTANT NOTES

The term "ordinarily reside(s)"** used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family normally reside(s).
5. Administrator / Secretary to Administrator / Development Officer (Lakshdweep Island).
6. Certificate issued by any other authority will be rejected.

OBC-NCL Certificate Format**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kum* _____ Son/
 Daughter* of Shri/Smt.* _____ of Village/
 Town* _____ District/Division* _____ in the
 State/Union Territory _____ belongs to the
 _____ community that is recognized as a backward class under
 Government of India**, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.
 _____ dated _____ ***

Shri/Smt./Kum. _____ and/or _____
 his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of
 the _____ State/Union Territory. This is also to certify that **he/she**
does NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule
 to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt.
 (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated
 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008, again
 further modified vide OM No.36036/2/2013-Estt (Res) dtd. 30/05/2014.

District Magistrate /
 Deputy Commissioner /
 Any other Competent Authority

Dated:

Seal

-
- * Please delete the word(s) which are not applicable.
 ** As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)
 *** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of
 Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

NOTE:

- (a) The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
- District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
 - Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 - Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
 - Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

ANNEXURE for FORM-OBC-NCL

Sl. No.	Resolution No.	Date of Notification
1	No.12011/68/93-BCC(C)	13.09.1993
2	No.12011/9/94-BCC	19.10.1994
3	No.12011/7/95-BCC	24.05.1995
4	No.12011/96/94-BCC	09.03.1996
5	No.12011/44/96-BCC	11.12.1996
6	No.12011/13/97-BCC	03.12.1997
7	No.12011/99/94-BCC	11.12.1997
8	No.12011/68/98-BCC	27.10.1999
9	No.12011/88/98-BCC	06.12.1999
10	No.12011/36/99-BCC	04.04.2000
11	No.12011/44/99-BCC	21.09.2000
12	No.12015/9/2000-BCC	06.09.2001
13	No.12011/1/2001-BCC	19.06.2003
14	No.12011/4/2002-BCC	13.01.2004
15	No.12011/9/2004-BCC	16.01.2006
16	No.12011/14/2004-BCC	12.03.2007
17	No.12011/16/2007-BCC	12.10.2007
18	No.12019/6/2005-BCC	30.07.2010
19	No. 12015/2/2007-BCC	18.08.2010
20	No.12015/15/2008-BCC	16.06.2011
21	No.12015/13/2010-BC-II	08.12.2011
22	No.12015/5/2011-BC-II	17.02.2014

APPENDIX-IV

DECLARATION / UNDERTAKING FOR OBC CANDIDATES ONLY

I, _____ son/daughter of Shri _____
resident of village/town/city _____
district _____, State _____

hereby declare that I belong to the _____ community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation if admission in Central Educational Institutions as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt. (SCT), dated 08/09/1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the above referred office Memorandum dated 08.09.1993 as revised from time to time.

Place:

Date:

Signature of the Candidate

NOTE:

“The admission is provisional and is subject to the community certificate being verified through the proper channels. If the verification reveals that the claim of the candidate to belong to other Backward Classes or not to belong to creamy layer is false, his/her admission will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false certificates.”